



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1067 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-144/2017-2786 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जामनीकांत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-467/03), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, संप्रति-निलंबित के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-804/स्था०, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा सूचित किया गया है कि W.P.(S) No.-2595/2008. निर्मल राणा बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले में तथ्यों को छिपाकर तथा गलत तरीके से प्रस्तुत कर तत्कालीन उपायुक्त, चतरा से तथ्य विवरणी अनुमोदन कराकर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड में गलत शपथ पत्र दायर किया गया है। गलत शपथ पत्र दायर किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. (Crl.) No.-04/2017 स्वतः प्रारंभ किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा इनसे कारण पृच्छा की गयी। उक्त वाद में दिनांक 25 जून, 2018 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित अंतरिम आदेश में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाया गया है, जैसा कि विभाग द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री जामनीकांत के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री जामनीकांत को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री जामनीकांत द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री जामनीकांत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्ता, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | JAMNI KANT BHR/BAS/1476 | श्री जामनीकांत, झा०प्र०से०, संप्रति-निलंबित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
